



SUMMATIVE ASSESSMENT ASSIGNMENT-2	
GRADE – 5	SUBJECT - HINDI
पाठ – 10 से पाठ -18	

(अपठित-विभाग)

प्र-1 अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

1] रंग -बिरंगे फूल सभी को प्रिय होते हैं। जब कभी हम फूलों से भरे बगीचे के समीप से गुजर रहे होते हैं तो फूलों की सुगंध हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फूलों को हम अन्य नामों से भी पुकारते हैं - पुष्प, सुमन, कुसुम एवं प्रसून आदि। इसी प्रकार फूल कई तरह के होते हैं जैसे- गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा आदि। फूल हमारे जीवन में अपना विशेष स्थान रखते हैं। जन्मोत्सव हो अथवा विवाह, पूजा का अवसर हो या किसी के स्वागत की तैयारी, किसी त्योहार पर रंगोली बनानी हो या भगवान के लिए माला अथवा गहने हमें फूलों की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि हम लोग जिस सुगन्धित इत्र (सेंट) का प्रयोग करते हैं वह भी फूलों से बनता है। गुलाब के फूलों का गुलकंद बनता है जो हमारे शरीर को ठंडक देता है। गुलाब के रस से गुलाब जल बनता है जो आँखों के लिए बड़ा लाभकारी है।

1- ऊपर लिखे अनुच्छेद को आप क्या नाम (शीर्षक) देना चाहेंगे?

1- मैं अनुच्छेद को "रंग -बिरंगे फूल" नामक (शीर्षक) देना चाहता हूँ।

2- फूलों के कोई अन्य दो नाम लिखिए।

2- फूलों के कोई अन्य दो नाम "पुष्प और सुमन" हैं।

3- फूलों को हम किस-किस उपयोग में लाते हैं?

3- रंगोली, गुलाब जल, माला अथवा गहने, गुलकंद आदि बनाने के उपयोग में लाते हैं।

4- गुलाब के फूल से क्या-क्या बनता है?

4- गुलाब के फूल से गुलाब जल, गुलकंद आदि बनता है।

5- जो फूल आपको पसंद हो उसका नाम लिखिए।

5- मुझे गुलाब, बेला, चमेली आदि फूल पसंद हैं।

2] भारत को यदि हम त्योहारों का देश कहें तो अनुचित नहीं होगा। हमारे देश में वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। हर बदलते मौसम के साथ ही कोई न कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। ये त्योहार एक ओर हमें ऋतु परिवर्तन का सन्देश देते हैं तो दूसरी ओर उसके स्वागत हेतु हममें उत्साह-उमंग का संचार करते हैं। कुछ त्योहार धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। ये सभी हमें एकता, प्रेम, भाई-चारे का सन्देश देते हैं। वैसे भी हमारे देश में लगभग सभी धर्मों के निवासी हैं। सभी त्योहारों को पूरा देश मिलजुलकर प्रसन्नता से मनाता है। हमारे देश के कुछ प्रमुख त्योहार हैं- होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, क्रिसमस गुरपुरब, महावीर जयंती आदि। दीपावली यदि हलकी ठंडक के साथ आरम्भ होकर शीतऋतु के आगमन की सूचना देता है, तो रामनवमी ग्रीष्मऋतु की सूचना देता है। इस प्रकार हर त्योहार किसी न किसी ऋतु से जुड़ा हुआ है। हमारे तीन राष्ट्रीय त्योहार हैं -स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इस प्रकार हमारा देश सचमुच त्योहारों का देश है।

1- हमारे देश का क्या नाम है?

1- हमारे देश का नाम भारत है।

2- हमारे देश में वर्ष भर किसकी धूम रहती है?

2- हमारे देश में वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है।

3- दीपावली का त्योहार हमें किस ऋतु के आगमन की सूचना देता है?

3- दीपावली का त्योहार हमें शीतऋतु के आगमन की सूचना देता है।

4- हमारे तीन राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं ?

4- हमारे तीन राष्ट्रीय त्योहार हैं- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती।

5- गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए?

5- " हमारे देश के त्योहार "

अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1] माँ, ये लहरें भी गाती हैं

कल-कल, छल-छल के मधुर स्वर में

अपना गीत सुनाती हैं।

मैं कब से बुला रही इनको

पर मेरे पास नहीं आती हैं।

कुछ खेल खेलती इसलिय

तट तक आकर फिर भाग जातीं

मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके

देखो ये मुझे बुलाती हैं।

माँ, ये लहरें भी गाती हैं।

1- लहरें क्या और किस प्रकार सुनाती हैं?

1- लहरें कल-कल मधुर गीत सुनाती हैं।

2- कौन, किसे बुला रहा है?

2- कवि लहरों को बुला रहा है।

3- 'तट' शब्द का पर्यावाची लिखिए।

3- किनारा

4- 'मधुर' शब्द का विलोम लिखिए।

4- कड़वा

5- पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

5- " लहरें "

2] रेशम जैसी हँसती खिलती, नभ से आई एक किरण
फूल-फूल को मीठी, मीठी, खुशियाँ लाई एक किरण
पड़ी ओस की कुछ बूंदें, झिलमिल-झिलमिल पत्तों पर
उनमें जाकर दिया जलाकर, ज्यों मुसकाई एक किरण
लाल-लाल थाली-सा सूरज, उठकर आया पूरब में
फिर सोने के तारों जैसी, नभ में छाई एक किरण

1- कवि ने किरण के लिए किन-किन विशेषणों का प्रयोग किया है?

1- कवि ने किरण के लिए रेशम जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है।

2- किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आई?

2- किरण फूलों के लिए मीठी-मीठी खुशियाँ लेकर आई।

3- ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया?

3- ओस की बूंदों ने पत्तों को नहला दिया।

4- सूरज की विशेषता है.....

4- वह लाल-लाल थाली जैसा है।

5- पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

5- " सूरज की किरणें "

(लेखन- विभाग)

➤ अनुच्छेद

1) क्रिसमस

क्रिसमस का त्योहार न केवल भारत में, बल्कि सम्पूर्ण विश्व में अत्यन्त उल्लास, उमंग, आस्था एवं प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। ईसाई समुदायों के लिये क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्योहार है हालाँकि ये पूरी दुनिया में दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। ये एक प्राचीन उत्सव है जो वर्षों से शीत ऋतु में मनाया जाता है। ये प्रभु ईशु के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। पारिवारिक सदस्यों में सभी को सांता क्लॉज़ के द्वारा क्रिसमस की मध्दरात्रि में उपहार बाँटने की बड़ी परंपरा है। सांता क्लॉज़ रात के समय सभी के घरों में जाकर उनको उपहार बाँटता है खासतौर से बच्चों को वो मजाकिया उपहार देता है। बच्चे बड़ी व्याकुलता से सांता और इस दिन का इंतजार करते हैं। इस पर्व में मिठाई, चॉकलेट, ग्रीटींग कार्ड, क्रिसमस पेड़, सजावटी वस्तुएँ आदि भी पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदार और पड़ोसियों को देने की परंपरा है। लोग पूरे जनून के साथ महीने के शुरुआत में ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। इस दिन को लोग गाने गाकर, नाचकर, पार्टी मनाकर, अपने प्रियजनों से मिलकर मनाते हैं। प्रभु ईशु, ईसाई धर्म के संस्थापक के जन्मदिवस के अवसर पर ईसाईयों द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि मानव जाति की रक्षा के लिये प्रभु ईशु को धरती पर भेजा गया है। इस तरह क्रिसमस का त्योहार लोगों को सबके साथ मिल-जुलकर रहने का संदेश देता है। ईशु मसीह कहते थे- दीन-दुखियों की सेवा संसार का सबसे बड़ा धर्म है।

2) मेरा प्रिय खिलाड़ी

खेल और खिलाड़ी में सभी रुची लेते हैं। भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट मैच के दिन लोग भारी संख्या में क्रिकेट के मैदान में टूट पड़ते हैं और भारतीय टीम को प्रोत्साहित करते हैं। मेरा प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। यह नाम आजकल बच्चे-बच्चे की जुबान पर है। छोटे-से-छोटा बच्चा भी उनकी तस्वीर देखकर उन्हें पहचान लेता है और उन्हीं की तरह बनना चाहता है। सचिन क्रिकेट के इतिहास में सबसे प्रतिभावान बल्लेबाज़ हैं। भारत की ओर से सन् 1989-90 में सोलह वर्ष की आयु में सचिन ने क्रिकेट के मैदान में पहली बार कदम रखा था। तब से आज तक वे नई-नई ऊँचाइयों को छूते हुए सदा आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे आज जिस स्तर पर पहुँचे हैं, यह उनकी लगन और परिश्रम का फल है। उन्होंने अपने आपको पूर्ण रूप से क्रिकेट को समर्पित कर दिया है। सचिन की गिनती देश के ही नहीं, बल्कि विश्व के महान बल्लेबाज़ों में की जाती है। अपने नब्बे-वें जन्मदिन पर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने सचिन को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर उनकी प्रशंसा की थी। ब्रैडमैन के बाद सचिन को ही श्रेष्ठ क्रिकेटर मानते हैं। सचिन कमाल के बल्लेबाज़ हैं। वे लगातार क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं। सन् 1992 में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने अपना पहला शतक बनाया। शेनवार्न जैसे महान गेंदबाज़ की गेंदों को उन्होंने इस तरह पीटा कि उनके छक्के छूट गए। सितंबर 1998 में जिंबाब्वे में 127 रन बनाकर वे एकदिवसीय क्रिकेट के सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। यह एकदिवसीय मैच में उनका 22वां शतक था। भारत सरकार ने भी उन्हें 'खेल-रत्न' और 'पद्मश्री' की उपाधि से सम्मानित किया है। मैं भविष्य में सचिन तेंदुलकर के समान श्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता हूँ।

➤ पत्र-लेखन लिखिए

1) अपनी बहन के जन्मदिन की पार्टी में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए।

2/26

हिन्द गंज

अजमेर

राजस्थान

19-03-2022

प्रिय मित्र,

आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं आपको अपनी बहन के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ, जो 02-04-2022 को है। कृपया आप अपने परिवार के साथ पधारें और पार्टी का आनंद लें। पार्टी में मिलते हैं।

धन्यवाद

आपका दोस्त

रोहन कुमार

2) कक्षा में देर से आने पर प्रवेश की अनुमति के लिए कक्षा अध्यापक को पत्र लिखिए।

सेवा में

कक्षा अध्यापक महोदय,

पूना इंटरनेशनल स्कूल

जनता विहार,

अहमदाबाद

विषय – कक्षा में प्रवेश की अनुमति हेतु।

महोदय

सविनय निवेदन है कि आज प्रातः जब मैं विद्यालय के लिए घर से निकला तो मेरी साईकिल का टायर पंचर हो गया। मुझे पुनः वापस घर लौटना पड़ा ताकि मेरे पिताजी मुझे अपने स्कूटर पर विद्यालय छोड़ सकें। किन्तु ऐसा होने में मुझे पहले तास में आने में देर हो गयी। कृपा करके मुझे कक्षा में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें। आपकी बहुत कृपा होगी।

सधन्यवाद.

आपका आज्ञाकारी छात्र

संजय शर्मा

रोल नंबर -31

दिनांक – 11 मार्च 2022

(व्याकरण-विभाग)

➤ दिए गए वाक्यों के सही काल लिखिए।

- 1- सुषमा चाय बना रही है। = वर्तमानकाल
- 2- अभिषेक नाश्ता करेगा। = भविष्यकाल
- 3- सब अपने-अपने घर चले गए थे। = भूतकाल
- 4- नितिन कल जाएगा। = भविष्यकाल
- 5- हवा चल रही थी। = भूतकाल
- 6- रवि पढ़ता है। = वर्तमानकाल
- 7- हम लोग खेलेंगे। = भविष्यकाल
- 8- सुधांशु गाड़ी चलाता है। = वर्तमानकाल

- 9 - रमेश पटना गया था। = भूतकाल
- 10- वर्षा हो रही है। = वर्तमानकाल
- 11- मोर नाच रहा था। = भूतकाल
- 12- मैं कल विद्यालय जाऊंगा। = भविष्यकाल
- 13- पिताजी खाना खा रहे हैं। = वर्तमानकाल
- 14 -अंकित ने गाना गाया। = भूतकाल
- 15 - रागिनी नाचती है। = वर्तमानकाल

➤ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए।

- 1- जिसके नीचे रेखा हो = रेखांकित
- 2- ईश्वर में आस्था रखने वाला = आस्तिक
- 3- जिसे कभी बुढ़ापा न आये = अजर
- 4- दया करने वाला = दयालु
- 5- जो कभी न मरे = अमर
- 6- सप्ताह में एक बार होने वाला = साप्ताहिक
- 7- अच्छे आचरण वाला = सदाचारी
- 8- वर्ष में एक बार होने वाला = वार्षिक
- 9- प्रतिदिन होने वाला = दैनिक

- 9- आज्ञा का पालन करने वाला = आज्ञाकारी
- 10- जिसका कोई मूल्य न हो = अमूल्य
- 11- रात में घूमने वाला = निशाचर
- 12- नगर में वास करने वाला = नागरिक
- 13- देखने योग्य = दर्शनीय
- 14- जो पहले जन्मा हो = अग्रज
- 15- प्रतिदिन होने वाला = दैनिक

➤ दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए।

- 1 आकाश – नभ, गगन, अम्बर, आसमान
- 2) पानी - जल, नीर, वारि, सलिल
- 3) धरती - पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा
- 4) वायु – पवन, अनिल, समीर, हवा
- 5) जंगल - विपिन, कानन, वन, अरण्य
- 6) पक्षी - खग, चिडिया, गगनचर, नभचर
- 13) तालाब - सरोवर, जलाशय, पुष्कर, पोखरा
- 14) दिन - दिवस, दिवा, वार
- 15) उद्यान - बाग, वाटिका, उपवन, बगीचा
- 16) रात - रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी
- 17) सूर्य - रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर
- 18) बादल - मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद

- 7) पुष्प - फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून
- 8) भौरा - भ्रमण, भँवरा, सारंग, मधुप
- 9) हिमालय - हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज
- 10) कमल- पंकज, नीरज, सरोज, जलज
- 11) पहाड़ - पर्वत, गिरी, अचल, नग, भूधर
- 12) नदी - सरिता, तटीना, सरि, सारंग

➤ उपसर्ग से शब्द बनाए |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) अध –अधपका,अधजला, अधखुली | 2) उन – उन्चास,उनसठ, उन्नतीस |
| 3) कु – कुफल,कुणाल,कुमाता | 4) पर – पराधिन, पराजित, पराक्रम |
| 5) सु – सुकाल,सुनाम, सुशासन | 6) आ –आदान,आकार, आकंठ |
| 7) वि – विकास,विकल, विरोध | 8) सु – सुपुत्र, सुरक्षा, सुसंगती |
| 9) प्रति – प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिपण | 10) नि – निरोग, नियम, निसंतान |
| 11) पर – पराधिन, पराजित, पराक्रम | 12) कु – कुणाल,कुमाता, कुपुत्र |
| 13) हम – हमराज, हमदर्द, हमशक्ल | 14) ला – लाईलाज, लाचार, लापरवाह |
| 15) बद –बद नाम, बदनियती, बदहवास | 16) खुश –खुशमिजाज, खुशनुमा खुशहाल |

➤ मुहावरे

कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं।

- 1) कान भरना- चुगली करना

वाक्य- आज मास्टर जी हमसे नाराज हैं किसी ने उनके कान भरे हैं।

- 2) आकाश-पाताल एक करना- बहुत परिश्रम करना।

वाक्य- परीक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश-पाताल एक करना पड़ता है।

- 3) नाक कटना-बेइज्जत होना

वाक्य - पंकज की जब से नाक कटी है वह तो घर से बाहर ही नहीं निकलता |

- 4) नौ-दो-ग्यारह होना- गायब हो जाना।

वाक्य- पुलिस को आता देख चोर नौ-दो-ग्यारह हो गए।

- 5) अन्त पाना- भेद पाना

वाक्य - चाणक्य की नीति का अंत पाना कठिन है।

- 6) पानी फेर देना- निराश कर देना।

वाक्य- श्याम ने पहली गेंद पर आउट होकर पूरी टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

- 7) अगर मगर करना -टालमटोल करना, बहाना बनाना

वाक्य-मोहन कि मां ने उसे बाजार से सब्जी लाने को कहा तो मोहन ने आनाकानी दिखाने लगा इसे कहते हैं अगर मगर करना।

- 8) मुँह की खाना- हार जाना

वाक्य-महाभारत के युद्ध में कौरवों ने मुँह की खाई।

- 9) हवा से बातें करना- बहुत तेज़ दौड़ना

वाक्य-शताब्दी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है।

- 10) हाथ बँटाना- सहायता करना

वाक्य-मैं अपने पापा के काम में हाथ बँटाता हूँ।

➤ विराम चिह्न को पहचानकर उनके नाम लिखिए |

- | | |
|---|--|
| (1) अल्प विराम (Comma) (,) | (2) अर्द्ध विराम (Semi colon) (;) |
| (3) पूर्ण विराम(Full-Stop) (.) | (4) उप विराम (Colon) [:] |
| (5) विस्मयादिबोधक चिह्न (Sign of Interjection)(!) | (6) प्रश्नवाचक चिह्न (Question mark) (?) |
| (7) कोष्ठक (Bracket) (()) | (8) योजक चिह्न (Hyphen) (-) |

(साहित्य -विभाग)

➤ सही विकल्प चुनकर लिखिए ।

- १: मातायन और अमरनाथ के बीच की दूरी कितनी थी?
 (क) दस मील (ख) आठ मील
 (ग) छः मील (घ) इनमे से कोई नहीं
- २: जवाहर ने पहाड पर चढने से पहले अपने किस अंग मे रस्सी बाँधी थी?
 (क) पैरो में (ख) हाथो मे
 (ग) गर्दन में (घ) कमर में
- ३: उजले जैसे घाम का तात्पर्य क्या है?
 (क) बादलोवाली धूप (ख) धूप का न होना
 (ग) खुली धूप का होना (घ) इनमे से कोई नहीं
- ४: बरसात मे नदी का जल कैसा हो जाता है?
 (क) स्वच्छ (ख) अशुद्ध
 (ग) गँदा (घ) अपवित्र
- ५: जल-चक्र का संबंध किस विषय से है?
 (क) हिन्दी (ख) अंग्रेजी
 (ग) गणित (घ) भूगोल
- ६: पानी से जुडे झगडो के निदान के लिए कुछ लोग अपने नलो के पाइप मे क्या लगवाते है?
 (क) पंप (ख) मोटर
 (ग) जनरेटर (घ) इंजन
- ७: पानी के चक्कर मे न फँसने के लिए किसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए?
 (क) आहार -चक्र का (ख) जल-चक्र का
 (ग) वायु -चक्र का (घ) इन सबका
- ८: बिशन ने तीतर को पकडने के लिए अपने किस वस्त्र का उपयोग किया?
 (क) स्वेटर का (ख) शर्ट का
 (ग) टोपी का (घ) तौलिये का
- ९: शिकारियो की जान-पहचान किससे थी?
 (क) गुलाबचंद्र से (ख) माधो सिंह से
 (ग) कर्नल से (घ) कर्नल की पत्नी से
- १०: बाघ किस समय बस्ती मे आया था?
 (क) सुबह को (ख) शाम को
 (ग) दोपहर को (घ) रात को
- ११: राजम किसका बेटा था?
 (क) वकील का (ख) सब-मजिस्ट्रेट का
 (ग) पुलिस अधीक्षक का (घ) शिक्षक का
- १२: स्वामीनाथन किसके गलत जवाब से चिड गया था?
 (क) दादाजी (ख) दादीजी
 (ग) पिताजी के (घ) माताजी
- १३: संतरी ने चले को क्या खाते देखा?
 (क) खाजा (ख) मलाई
 (ग) ककडी (घ) हलवा
- १४: चेला कैसा था?
 (क) चालाक (ख) बुद्ध
 (ग) दुष्ट (घ) लडाकू

१५: कोको के घर सबसे पहले किसका आगमन हुआ?

(क)मिमि का
(ग)तिनसू का

(ख)नीनी का
(घ)उ बात तुन का

➤ निम्नलिखित प्रश्नों के अति लघु उत्तर लिखिए।

१ कोको के माता-पिता किस काम से, कहाँ गए थे?

उ- कोको के माता- पिता धान लगाने खेत में गए थे।

२ कोको ने पहली बार रोटियाँ छिपाकर कहाँ रखी थीं?

उ-कोको ने पहली बार रोटियाँ रेड़ियों के पीछे छिपाकर रखी थीं।

३ दीवार गिरने के अपराध में सबसे पहले किसे, क्या सजा सुनाई गई?

उ-दीवार गिरने के अपराध में सबसे पहले कारीगर को फाँसी की सजा सुनाई गई।

४ मशकवाले ने किसे दोषी ठहराया?

उ-मशकवाले ने मंत्री को दोषी ठहराया।

५ स्वामीनाथन के दादा जी किस पद पर थे?

उ- स्वामीनाथन के दादाजी सब-मजिस्ट्रेट थे।

६ राजम को गणित में कितने नंबर मिलते थे?

उ- राजम को गणित में सौ में से नब्बे नंबर मिलते थे।

७- गेहूँ के खेतों में तीतरों का जमावडा कब लगता है?

उ- जब फसल पक जाती है, तब गेहूँ के खेतों में तीतरों का जमावडा लगता है।

८- तीतर कहाँ फँसा छटपटा रहा था?

उ-तीतर गेहूँ को बालियों के बीच फँसा छटपटा रहा था।

९- नलों से सूँ-सूँ की आवाज़ कब आती है?

उ- जब पूरे समय नलों में से पानी नहीं आता तब नल खोलने पर सूँ-सूँ की आवाज़ आती है।

१०- जल-संकट से निपटने के लिए हमें किन दो चीजों को ठीक से समझने और सँभालने की आवश्यकता है?

उ- जल-संकट से निपटने के लिए हमें जलचक्र को ठीक से समझना होगा। नदी, तालाबों की रखवाली करनी होगी।

११- पाठ में बर्फीले मैदान की तुलना किससे की गई है?

उ- पाठ में बर्फीले मैदान की देवताओं के मुकुट से की गई है।

१२- नेहरुजी सदा किससे आकर्षित होते रहे?

उ- नेहरुजी सदा हिमालय की ऊँचाईयों से आकर्षित होते रहे।

१३- " वो इधर से निकला उधर चला गया।" यह किसने कहा?

उ- - " वो इधर से निकला उधर चला गया।" यह वाक्य बेटू ने कहा।

१४- फिर से आगाह किसने किया?

उ- फिर से आगाह बेटू ने किया।

१५- अम्मी क अधिकार किसके द्वारा छिने गए थे?

उ- अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम द्वारा छिने गए थे।

१६- दादी सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद क्या-क्या करती थीं?

उ- दादी सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद दवाइयाँ खाती और बादाम का हरीरा पीती थी।

